

माब लचिगि पर कानून बनाए सरकार : सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

गो-रक्षकों और भीड़ द्वारा हिसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिपिणियाँ करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दशा-नरिदेश जारी किये हैं। चीफ जस्टिस दीपक मशिंरा, जस्टिस ए.एम. खानवलिंकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि भीड़तंत्र को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने हाल के दिनों में बढ़ रही माब लचिगि (भीड़ द्वारा हत्या) को 'भीड़तंत्र का भयानक कृत्य' बताया है।

नरिधात्मक, सुधारात्मक और दंडात्मक दशा-नरिदेश

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिंरा की अगुवाई वाली बेंच ने अपने 45 पेज के फैसले में आश्चर्य व्यक्त किया है कि क्या "भारत जैसे महान गणराज्य की जनसंख्या ने विधि संस्कृति को बनाए रखने के लिये सहिष्णुता का मूल्य खो दिया है?"
- गोरक्षा या बच्चा चोरी के नाम पर लगातार हो रही हसिक घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिकरिया जताते हुए नरिधक, उपचारात्मक और दंडात्मक दशा-नरिदेश जारी किये हैं और कहा है कि राज्य सरकार हर ज़िले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करे जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाए।
- DSP स्तर का अफसर भीड़ द्वारा की गई हसिा और लचिगि को रोकने में सहयोग करेगा। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए और यह उन लोगों की खुफिया सूचना इकट्ठा करेगी जो इस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं या फेक न्यूज या हेट स्पीच दे रहे हैं।
- राज्य सरकार ऐसे इलाकों की पहचान करे जहाँ ऐसी घटनाएँ हुई हों और पाँच साल के आँकड़े इकट्ठा करे। केंद्र और राज्य आपस में समन्वय रखें। सरकार भीड़ द्वारा हसिा के खिलाफ जागरूकता का प्रसार करे।
- ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 153 A या अन्य धाराओं में तुरंत केस दर्ज हो और वक्त पर चार्जशीट दाखल हो तथा नोडल अफसर इसकी नगिरानी करे।
- राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहतिा की धारा 357 के तहत भीड़ हसिा से पीड़ितों के लिये मुआवज़ा योजना बनाए और चोट के मुताबकि मुआवज़ा राशतिय करे। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और संबंधित धारा में ट्रायल कोर्ट अधिकतम सज़ा दे। लापरवाही बरतने पर पुलसिा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से चार हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखल करने को कहा।

राक्षसी कृत्यों से रहें सावधान

- लचिगि और भीड़ हसिा को "खतरे में डालने" के रूप में वर्णित करते हुए, अदालत ने चेतावनी दी कि फिर्जी खबरों, आत्म-घोषतिा नैतिकता और झूठी कहानियों द्वारा फैलाया गया उन्माद देश के लोगों को "टाइफून-जैसे राक्षस" की तरह बरबाद कर देगा।
- न्यायालय ने कहा कि वंश, जाति, वर्ग या धर्म के बावजूद सभी व्यक्तियों की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक दायतिव है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता और न ही अपराधी का।
- इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लचिगि की घटनाएँ इतनी अनरिधतिरति हो गई थीं कि मारिक् ट्वेन ने अमेरिका को "लचिरडम संयुक्त राज्य" कहा था। उनका यह कटाक्ष स्पष्ट है।
- जनवरी में गोर-क्षकों द्वारा की गई हसिा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरयाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटसिा जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए।
- याचिकाकर्त्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदरिा जयसहि ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये राज्य हसिा रोकने में नाकाम रहे हैं और इन राज्यों में गोरक्षा के नाम पर हसिा की कई घटनाएँ हुई हैं।
- गौरतलब है कि 6 सतिंबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा था कि गो-रक्षा के नाम पर हसिा रुकनी चाहिये। घटना के बाद ही नहीं उससे पहले भी रोकथाम के उपाय किये जाने ज़रूरी हैं।

सरवोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर तोड़ी है अपनी चुप्पी

- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में कई मौकों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और देश के हति में फैसले दिये हैं।
- अदालत ने राजनीतिक वर्ग की चुप्पी भी तोड़ी है जो आवरती अपराध की गंभीरता को स्वीकार करने में वफिल रहा है। भीड़ द्वारा हसिा, वशिष रूप से गाय के नाम पर ज़्यादातर अल्पसंख्यकों, वंचति तथा कमज़ोर वर्ग को लक्षति किया गया है।
- इसलिये अदालत की सराहना की जानी चाहिये, जसिने "लोकतंत्र के भयानक कृत्यों" पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और हसिा के इन स्वरूपों के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है।

- न्यायालय द्वारा दिये गए सुझावों पर अब वधायिका, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा व्यापक चर्चा की शुरुआत होनी चाहिये।
- इस संबंध में कई सवाल उठेंगे जैसे- भीड़ द्वारा की गई हिसा को कैसे परभाषित किया जाएगा? सत्कर्ता, सांप्रदायिक हिसा और घृणित अपराध के बीच वभिद, ओवरलैप या अंतःपरच्छेदन क्या होगा? कानून और उसके कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य की भूमिका क्या होगी? क्या एक कानून राजनीतिक इच्छाशक्तिके अभाव में प्रभावी हो सकता है? आदि।
- ये सभी सवाल इस बात पर ज़ोर देते हैं कि 21वीं शताब्दी में सर्वोच्च न्यायालय को लचिगि के लिये एक नया कानून बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। क्या हम इतने असहषिणु हो गए हैं?
- अशांत होते लोकतंत्र में न्यायिक सक्रयिता का क्या असर पड़ता है यह देखने की बात है। यह भी एक वचिरणीय बडुि है कतिमाशबीनों की उदासीनता, अपराध के मूक दरशकों की संख्या और सोशल मीडिया सहति अपराधियों द्वारा घटना की सार्वभौमकिता इस हसिक कृत्य को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/make-lynching-a-seperate-offence-sc-tells-parliament>

